

## मनोवश्लेषण का सरलीकरण

### प्रलिम्स के लिये:

मनोवश्लेषण

### मेन्स के लिये:

मनोवश्लेषण, मनोवश्लेषण और आपराधिक पुनर्वास में शामिल नैतिक पहलू

[स्रोत: द हद्दि](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में दलिली पुलसि ने खुलासा किया कि [संसद उल्लंघन](#) की घटना में आरोपी छह व्यक्तियों को उनके उद्देश्यों को समझने के लिये मनोवश्लेषण (Psychoanalysis) प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

## मनोवश्लेषण क्या है?

- **परिचय:** मनोवश्लेषण सिद्धांतों तथा चिकित्सीय तकनीकों का एक समूह है जिसकी सहायता से मानसिक विकारों का इलाज किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक अनुभव के अचेतन तथा सचेत तत्त्वों के बीच संबंधों की जाँच कर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का इलाज करना है।
  - इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी की शुरुआत में वनीज़ मनोचिकित्सक **सिगमंड फ्रायड (Sigmund Freud)** ने की थी।
- **मनोवश्लेषण से संबंधित मुख्य पहलू:**
  - **अचेतन मन:** फ्रायड ने प्रस्तावित किया कि मानव व्यवहार का अधिकांश हिस्सा अचेतन इच्छाओं, भय, स्मृतियों तथा संघर्षों से प्रभावित होता है जो अमूमन बचपन के शुरुआती अनुभवों से उत्पन्न होते हैं।
    - मनोवश्लेषण के माध्यम से अचेतन मन की जाँच की जाती है तथा पता लगाया जाता है कि यह कैसे चिंतों, व्यवहारों, भावनाओं एवं व्यक्तित्व को आकार देता है।
  - **इड, ईगो, सुपरईगो:** फ्रायड ने मन का एक संरचनात्मक मॉडल पेश किया जिसमें इड/Id (प्रवृत्तियों तथा आनंद से जनित), अहम्/Ego (id व वास्तविकता के बीच मध्यस्थ) तथा सुपरईगो (सामाजिक मानदंडों व मूल्यों को आंतरिक बनाता है) शामिल है।
    - यह मॉडल मानसिक समस्याओं को समझने में सहायता करता है।
  - **मनोवश्लेषणात्मक थेरेपी:** इसमें रोगी तथा चिकित्सक के बीच मौखिक वार्ता शामिल होती है, जिसका उद्देश्य अचेतन संघर्षों को जानना तथा किसी भी भावनाओं एवं व्यवहारों में अंतरदृष्टि प्राप्त करना है।

## मनोवश्लेषण में शामिल नैतिक पहलू क्या हैं?

- **सूचित सहमति:** उपचार शुरू करने से पहले रोगी को मनोवश्लेषण की प्रकृति, इसके संभावित लाभों, जोखिमों और विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
  - यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रक्रिया में अक्सर व्यक्तिगत और संवेदनशील विषयों पर चर्चा शामिल होती है।
  - इसके अलावा सूचित सहमति प्राप्त करना [अनुच्छेद 21](#) के संभावित उल्लंघनों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि [कसैलवी बनाम करनाटक राज्य और अन्य मामले \(2010\)](#) में उजागर किया गया है।
- **गोपनीयता:** चिकित्सा में रोगी की गोपनीयता बनाए रखना सर्वोपरि है। हालाँकि कुछ स्थितियों में, चिकित्सकों को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जब कोई मरीज़ खुद के लिये या दूसरों के लिये खतरा पैदा करता है।
  - चेतावनी देने या सुरक्षा करने के कर्तव्य के साथ गोपनीयता को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **स्थानांतरण और प्रतिसंक्रमण:** पछिले अनुभवों या अनसुलझे मुद्दों के कारण रोगी और चिकित्सक दोनों एक-दूसरे के प्रति तीव्र भावनाओं

या प्रतिक्रियाओं का अनुभव कर सकते हैं।

◦ इन भावनाओं को नैतिक रूप से प्रबंधित करना।

- सांस्कृतिक संवेदनशीलता: यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे उचित देखभाल प्रदान करें और विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करें, चिकित्सकों को सांस्कृतिक रूप से सक्षम तथा अपने पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है।

## मनोवश्लेषण आपराधिक पुनर्वास में कैसे मदद कर सकता है?

- सहानुभूति विकसित करना: मनोवश्लेषण व्यक्तियों को दूसरों पर उनके कार्यों के प्रभाव को समझने में मदद करके सहानुभूति को बढ़ावा दे सकता है।
  - आत्म-चिंतन और चिकित्सा में प्राप्त अंतर्दृष्टि के माध्यम से, अपराधी अपने व्यवहार के परिणामों की अधिक समझ विकसित कर सकते हैं, जिससे सहानुभूति बढ़ सकती है।
- आवेग नियंत्रण: हसिक या आवेगी व्यवहार के इतिहास वाले व्यक्तियों के लिये, मनोवश्लेषण इन प्रवृत्तियों को समझने और प्रबंधित करने में सहायता कर सकता है।
  - गहरी भावनाओं और अनसुलझे संघर्षों की खोज करके, व्यक्ति अपनी भावनाओं तथा आवेगों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीख सकते हैं, जिससे दोबारा अपराध करने की संभावना कम हो जाती है।
- पुनरावृत्ति को रोकना: मूल प्रेरणाओं को संबोधित करके, व्यक्ति विनाशकारी पैटर्न से मुक्त होने और सार्थक तरीके से समाज में पुनः एकीकृत होने के लिये बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/decoding-psychoanalysis>

